

## मुखिया जी का भाषण

आज हम कुष्ठ की चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं . ३० जनवरी १९४८ को हमारे राष्ट्र पिता का देहांत हुआ था . गाँधी जी कुष्ठ रोगियों के प्रति स्नेह और सेवा भाव रखते थे. इसलिए उनकी पुण्यतिथि कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है .

बापू ने कुष्ठ रोगियों को सेवा करके यह साबित किया है की कुष्ठ से पीड़ित लोगों की सेवा वह देखरेख करने से कुष्ठ नहीं फैलता है . कुष्ठ की बीमारी कीटाणु से फैलता है और किसी को भी हो सकता है .

कुष्ठ की पहचान बहुत आसान है . चमड़ी पर सुन्न दाग धब्बा हो तो नज़दीक के स्वस्थ केंद्र पर जा कर जांच करें. जांच व एम दी टी दवाई मुफ्त में मिलती है . समय पर इलाज करने से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है . यदि उपचार जल्द नहीं कराया गया तो कुछ लोगों को अंग विकृति हो सकती है . इसी लिए चमड़ी के दाग - धब्बो को अनदेखा ना करे , तुरंत जाच कराये.

गाँव को कुष्ठ मुक्त करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है . हम सब की जिम्मेदारी है की कुष्ठ के लक्षण वाले व्यक्तियों के साथ कोई भी भेदभाव न करते हुए उन्हें जाँच के लिए स्वस्थ केंद्र भेजे और कुष्ठ की पुष्टि होने पर पूर्ण इलाज करने मदद करे.

अब हम गाँव को कुष्ठ मुक्त करने का संकल्प लेतेहैं.

# जिलाधिकारी का संदेश

भाइयों एवं बहनों,

जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश/जिला में कुष्ठ रोग अभी भी एक समस्या है। कुष्ठ रोग एक मामूली बीमारी है, जो एक जीवाणु ( लेप्र बेसिलाई ) से होता है। यह एक छुआ छुत का रोग नहीं है। इसकी जाँच और इलाज सभी सरकारी हस्पतालों एवं स्वास्थ्य कन्द्रों में मुफ्त मिलता है।

कुष्ठ रोग की शुरुआत में पहचान और जाँच एवं पूरा इलाज करा लिया जाए। इसके इलाज की अवधि 6 माह या 12 माह होती है।

कुष्ठ रोग के शुरुवाती संकेत और लक्षण:

1. चमड़ी के रंग से फीका एक या एक से ज्यादा दाग या धब्बे जिसमें सुन्नपन, सूखापन हो, पसीना आता हो, खुजली, जलन, चुभन ना होती हो, कुष्ठ हो सकता है।
2. शरीर पर, चेहरे पर, भोहों के ऊपर, कानों के ऊपर सुजन गठान, दाने या तेलीय चमक दिखाई पड़े।
3. हाथ पैर में सूखापन, सुन्नपन एवं कमजोरी होने पर भी कुष्ठ की जाँच कराए।

M D T कुष्ठ की शर्तिया दवा है, जो सभी सरकारी हस्पतालो एवं स्वास्थ्य कन्द्रों पर उपलब्ध है।

हमारे जिले में अनेक कुष्ठ रोगीयो ने उपचार लिया है एवं कुष्ठ मुक्त हो चुके है।

अतः सभी से आग्रह है की अगर आपके या आपके पडोस के किसी व्यक्ति को इस तरह के दाग धब्बे हो तो आशा / आंगनबाड़ी / स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ से संपर्क करें उसकी जाँच करवाए।

## प्रतिज्ञा

मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर शपथ लेता हूँ कि मैं संदेहास्पद कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आने के लिये प्रेरित करूँगा। मैं यह भी सुनिश्चित करूँगा की अगर उसे कुष्ठ रोग है तो उसका पूरा इलाज करवाने में मदद करूँगा।

अगर मेरी नजर में मेरे परिवार, पड़ोस और समाज में कोई कुष्ठ रोग का मरीज है तो मैं उस के साथ बैठने खाने, घूमने, फिरने पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा

मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति के साथ सामाजिक भेदभाव के रोकथाम के लिए सदा प्रयत्नशील रहूँगा।

मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्य तिथि में उनका सपना कुष्ठ मुक्त भारत के लिए सदा प्रयत्नशील रहूँगा।